



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II-खण्ड 3-उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 68]

नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 18, 1966/चैत्र 28, 1888

No. 68]

NEW DELHI, MONDAY, APRIL 18, 1966/CHAITRA 28, 1888

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue and Insurance)

NOTIFICATION

CUSTOMS

New Delhi, the 18th April 1966

G.S.R. 584.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), read with sub-section (4) of section 77 of the Finance Act, 1965 (10 of 1965), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following amendment to the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance), No. 55-Customs, dated the 31st March, 1966, namely:

In the said notification, for the words "through the Kandla port", the words "for installation or consumption within the Kandla Free Trade Zone" shall be substituted.

[No. 58/F. No. 24/34/58-Cus.I.]

D. N. LAL, Dy. Secy.

(305)

